

शैक्षिक समाचार
राजस्थान



शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 2.16 में कक्षा 1 से 12 के विद्यालयों में (कक्षा 1 से 8 तक के लिए) वरिष्ठतम् व्याख्याता को तथा कक्षा 1 से 10 तक के विद्यालयों में (कक्षा 1 से 5 के लिए) वरिष्ठतम् अध्यापक को प्रभारी (हैड टीचर) का प्रभार देने का उल्लेख किया गया है।

संस्थाप्रधानों (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) द्वारा समय-समय पर आयोजित बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विद्यालय का प्रभावी संचालन बाबत् व्यावहारिक बनाने के सम्बन्ध में विभाग का ध्यान आकर्षित किया है।

इस क्रम में परीक्षण कर, विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित संस्थाप्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) कक्षा 1 से 8/1 से 5 की कक्षाओं के प्रभावी एवं सुसंचालन के आशय से वरिष्ठतम् व्याख्याता/वरिष्ठतम् अध्यापक के स्थान पर विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम् व्याख्याता/वरिष्ठतम् अध्यापक के अतिरिक्त अन्य व्याख्याता/अध्यापक को भी हैडटीचर का प्रभार देने के लिए अधिकृत किया जाकर सम्बन्धित प्रभारी (हैडटीचर) के सम्बन्ध में कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

ग्रन्थ ई।।। 2015
(सुवालाल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविर-मा /माध्य/ अ-१/ समन्वितवि./ 21312/ वो-२/ 2014
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 05.11..2015

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
3. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
5. प्रभारी, सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा, विभागीय मेल पर अपलोड करने हेतु
6. समस्त संस्थाप्रधान, जरिये विद्यालय मेल आईडी
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली
9. समस्त संस्थाप्रधान।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-उनि/संशी/SIQE//2016-17/ ।-३

दिनांक २०/०६/१६

1. समरत उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा.....
3. समस्त संस्था प्रधान
समन्वित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

विषय— एसआईक्यूई कार्यक्रम के तहत संस्था प्रधान एवं हैडटीचर के दायित्व।

विषयान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016-17 में ग्रीष्मावकाश के उपरांत पूर्व की भाँति एसआईक्यूई कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री यथा टर्म एवं कक्षावार पाठ्यक्रम विभाजन, अध्यापक योजना डायरी, चैकलिस्ट, विद्यार्थी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन इत्यादि सभी विद्यालयों में उपलब्ध करवा दिये गये हैं। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के मध्येनजर संस्था प्रधान एवं हैडटीचर के दायित्वों का पुनः परिमाणित किया जाकर निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी है।

संस्था-प्रधान के दायित्व

01. प्राथमिक कक्षाओं में संचालित इस कार्यक्रम का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं संस्थाप्रधान का होगा। इस कार्यक्रम में हैड टीचर का सहयोग संस्थाप्रधान द्वारा लिया जाएगा।
02. सभी प्राथमिक कक्षाओं में एक विषय हेतु यथासंभव उसी शिक्षक को शिक्षण दायित्व दिया जावे।
03. हैडटीचर का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्राथमिक कक्षा का होता है अतः यथासंभव उसे अन्य दायित्व से मुक्त रखा जावे।
04. प्रार्थना सभा में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के आयुर्वग के अनुरूप गतिविधियों का आयोजन किया जावे।
05. शिक्षक कक्षा में प्रवेश से पूर्व शिक्षण योजना, एवं गतिविधि आधारित शिक्षण की तैयारी करे, जिससे रीखने सीखाने की प्रक्रिया एवं आकलन परम्पर अन्तर्संबंधित हो सके। कक्षा कक्षीय प्रक्रियाएँ बालकेन्द्रित तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित हो।
06. जिन विद्यार्थियों द्वारा बांछित कक्षा स्तर प्राप्त नहीं किया है उनके स्तर के अनुरूप उद्देश्यों का निर्धारण कर स्तरानुरूप गतिविधियों का आयोजन किया जावे।
07. शिक्षक की एसआईक्यूई की डायरी का संधारण हो तथा उस पर संस्थाप्रधान गुणात्मक टिप्पणी अंकित करते हुए, हस्ताक्षर करे।
08. शैक्षिक सत्र के आरंभ में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर निर्धारण के लिए लिया जाने वाला आधार रेखा आकलन/पदस्थापन (अन्तिम योगात्मक आकलन के अनुसार समूह निर्धारण) व्यवस्थित एवं पर्याप्त व्यापक हो तथा जांचकर्ता की स्पष्ट सकारात्मक टिप्पणी, हस्ताक्षर मय दिनांक, कक्षा स्तर का रपट उल्लेख हो।
09. शिक्षकों के पास पर्याप्त स्टेशनरी की उपलब्धता हो तथा कक्षा शिक्षण में उपयोग भी हो। (यथा— कागज रीम, सेलो टैप, रंगीन कागज, वेक्स कलर, गत्ता, गोंद आदि रीम पेपर)

10. पाक्षिक रूप से विद्यार्थी पोर्टफोलियो तथा मासिक रूप से सतत रचनात्मक आंकलन की मासिक रिथिति का अभिलेख संधारण किया जावे।
11. पोर्टफोलियो में पाक्षिक योजना में, प्रत्येक विषय की कम से कम 02 वर्कशीट का संधारण करवाएँ। वर्कशीट में प्रश्नों की विविधता, व्यापकता एवं वस्तुनिष्ठता हो। गृहकार्य एवं विद्यार्थी द्वारा किया गया विशेष कार्य भी पोर्टफोलियो का अंग हो।
12. कार्य पत्रक एवं गृहकार्य की नियमित जांच, त्रुटि अंकन एवं विद्यार्थियों से सुधार कार्य करवाया जावे। शिक्षक जांच करने के बाद सकारात्मक एवं गुणात्मक टिप्पणी एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर करें।
13. संरथा प्रधान सप्ताह में तीन विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषय के कालांशों में अध्यापन प्रक्रिया का अवलोकन करें। शिक्षक से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर एवं कठिनाईयों पर चर्चा करें। विद्यार्थियों के साथ संगाद करें।
(संरथाप्रधान हेतु कक्षा अवलोकन प्रपत्र संलग्न है)
14. कक्षा प्रक्रिया से संबंधित कठिनाईयों के संदर्भ में जिला अकादमिक ग्रुप, डाइट फैबलटी, डीएसएफ व केआरपी से सम्पर्क कर समाधान करने का प्रयास करें।
15. हैड टीचर के साथ कार्यक्रम की पाक्षिक समीक्षा एवं प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के साथ मासिक समीक्षा बैठक एवं इसका विवरण रजिस्टर में संधारित करें।
16. विद्यार्थियों का विद्यालय में औसत उपस्थिति से संबंधित मासिक आकंड़ों को निम्न सारणी में संधारित रखें।—

| कक्षा | कक्षा अध्यापक का नाम | कुल नामांकन | माह : | माह : | माह : |
|-------|----------------------|-------------|--------------|--|--|
| | | | औसत उपस्थिति | 70 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की संख्या | औसत उपस्थिति से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की संख्या |

17. प्रत्येक योगात्मक आंकलन के बाद विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को निम्नानुसार चार्ट में संधारित रखें।

| विषय | कक्षा 1 नामांकन | कक्षा 2 नामांकन..... | कक्षा 3 नामांकन..... | कक्षा 4 नामांकन..... | कक्षा 5 नामांकन..... |
|----------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या | कक्षा स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या | कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या | कक्षा स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या | कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या |
| हिन्दी | | | | | |
| गणित | | | | | |
| अंग्रेजी | | | | | |

18. एस.एम.सी एवं शिक्षक-अभिभावक बैठक में एस.आई.क्यू.इ. कार्यक्रम के अनुरूप कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया एवं आंकलन पर चर्चा एवं पोर्टफोलियो शेयर करें।
19. गणिक कार्यशाला में आवश्यक सामग्री के साथ विद्यालय के शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं लौटने पर उनसे फिल्डबैक लेना।
20. कक्षा 01 एवं 02 के लिए लहर (लर्निंग एनहांस एकिटिविटी इन राजस्थान) कार्यक्रम के अनुरूप कक्षा-कक्ष तैयार करवाना।

हैड टीचर के मुख्य दायित्व

एसआईक्यूई के समन्वित कार्यक्रम के तहत हैडटीचर के निम्न दायित्व होंगे—

1. प्राथमिक कक्षाओं में कम से कम एक विषय का अध्यापन कार्य करवाएँगे।
2. सप्ताह में कम से कम एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों के पोर्ट फोलियों का अवलोकन कर विषय अध्यापक को आवश्यकता अनुरूप सुझाव देंगे।
3. पोर्टफोलियो में आधार रेखा आकलन, कार्य पत्रक, योगात्मक आकलन के प्रपत्र में पर्याप्त व्यापकता हो। विषय अध्यापक से समय पर जांच कर, त्रुटि अंकन कर सुधार कार्य करवाना, टिप्पणी दर्ज करवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. पार्टफोलियो एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए आवश्यक स्टेशनरी यथा कागज रीम, सेलो टैप, रंगीन कागज, वेक्स कलर, गत्ता, गॉद आदि का मांग पत्र प्राप्त एवं समेकित कर संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाएँगे। आवंटित सामग्री का उपयोग कक्षा शिक्षण में सुनिश्चित करवाएँगे।
5. अध्यापक डायरी का नियमित अवलोकन, योजना के अनुरूप कक्षा स्तरीय प्रक्रियाओं का संचालन में सहयोग करेंगे।
6. विषय शिक्षकों द्वारा बाल केन्द्रित शिक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित समस्त गतिविधियां एवं रिकॉर्ड समय पर पूर्ण करें एवं रांधारण करने का प्रबोधन।
7. जो शिक्षक प्रशिक्षण/ कार्यशाला में जा रहे हैं वे पूर्ण तैयारी एवं आवश्यक सामग्री यथा डायरी, पाठ्य पुस्तके आदि साथ लेकर जायें।
8. कक्षा अवलोकन के दौरान योजना-समीक्षा एवं थैकलिस्ट में दर्ज विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन की सुरक्षात्ता देखना।
9. माह में कम से कम दो बार प्राथमिक कक्षाओं का अध्यापन करने वाले शिक्षकों के साथ औपचारिक बैठक का आयोजन कर विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा कर संस्थाप्रधान को लिखित में अवगत करायें एवं आवश्यकतानुरूप शिक्षकों को भी सुझाव देंगे।
10. विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का दरस्तावेजी करण करेंगे।
11. कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि में संस्था प्रधान एवं संबंधित शिक्षक को सहयोग करेंगे।

प्रलज्जन करना फॉरनीसन युपर्न (०१ पृष्ठ)

(बी. एल स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. निजी संघिव, शासन संघिव प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजरथान सरकार
2. निजी संघिव निदेशक राजभाषिप जयपुर
3. निदेशक प्रारिष्मक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, एसआईईआरटी उदयपुर
5. शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ जयपुर
6. निदेशक बोध शिक्षा समिति जयपुर
7. कार्यालय हाजा

(नोडल प्रमारी)

एसआईक्यूई

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एसआईक्यूइ कार्यक्रम के अन्तर्गत
संस्था प्रधान द्वारा कक्षा परिवेशण प्रपत्र

अध्यापक का नाम - कक्षा

विषय - दिनांक कालांश

कक्षा में कुल विद्यार्थी परिवेशण के दिन उपस्थित विद्यार्थी

कक्षा स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या

1. कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (अवलोकन के आधार पर ✓ का निशान लगाये)

| क्र. सं. | अवलोकन के लिए बिन्दू | निशान अंकित करें (✓) | टिप्पणी |
|----------|--|-------------------------|---------|
| 4.1. | विद्यार्थियों व शिक्षक के मध्य अस्तिसाम्बन्ध | | |
| 1.1 | बच्चे सहज व भयमुक्त हैं, तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। | | |
| 1.2 | केवल कुछ ही बच्चे भाग ले रहे हैं। | | |
| 1.3 | अधिकतर बच्चे भाग नहीं ले रहे। (करीब एक नौथाई से कम) | | |
| 4.2. | शिक्षक का शिक्षण विधि | | |
| 2.1 | पूरी ज्ञान से जोड़कर। | | |
| 2.2 | उपयोगस्तु पर वर्चा द्वारा। | | |
| 2.3 | शिक्षण राहगां क सामग्री की सहायता से। | | |
| 2.4 | शिक्षक द्वारा पाठ्यपुस्तक में। | | |
| 2.5 | विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यपुस्तक से। | | |
| 4.3. | कक्षा की बैठक व्यवस्था (कालांश के बीचमें) | | |
| 3.1 | बच्चे व शिक्षक दोनों एक गोले में समान स्तर पर बैठे हैं। | | |
| 3.2 | बच्चे छोटे-छोटे उपसमूह बनाकर बैठे हैं व शिक्षक अलग-अलग उपसमूहों में जाकर भदद कर रहे हैं। | | |
| 3.3 | बच्चे सीधी रेखाओं में बैठे हैं व शिक्षक कुर्सी से निर्देश दे रहे हैं। | | |
| 4.4. | शिक्षण कार्य में विद्यार्थियों की मागीदारी | | |
| 4.1 | कक्षा व्यवस्थित है व अधिकतर बच्चे सीखने-रिखाने प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। | | |
| 4.2 | कुछ बच्चे भी सक्रिय हैं। | | |
| 4.3 | बच्चे गात्रिक रूप से कार्य कर रहे हैं। | | |
| 4.4 | शिक्षण के अलावा अन्य कार्य में व्यस्त। | | |
| 4.5. | जो बच्चे कक्षा स्तर को प्राप्त नहीं कर सकें हैं उनके साथ विशेष कार्य किया जा रहा है - | | |
| 5.1 | कक्षा स्तर के अनुसार योजना है और क्रियान्वित हो रही है। | | |
| 5.2 | कक्षा स्तर निर्धारण है, परन्तु कक्षा में शिक्षण कार्य एक ही तरीके से किया जा रहा है। | | |

| टिप्पणी | क्या सच्चरतारीय पाद्यक्रमणीय उद्देश्यों पर कार्य कोता देखा गया | 4.6. |
|---------|--|-------|
| | प्रश्न पूछना, वर्चा करना, खोजबीन, निष्कर्ष निकालना इत्यादि प्रक्रिया विद्यार्थियों में घटित होती देखी गई। | 6.1 |
| | शिक्षक की योजना व तैयारी | 4.7. |
| | शिक्षक पूर्ण तैयारी व योजना के साथ काम करते नजर आए। | 7.1 |
| | योजना बनी हुई थी पर विद्यार्थी स्तर के अनुरूप नहीं। | 7.2 |
| | कोई योजना नहीं बनाई गई थी। | 7.3 |
| | सीसीपी व सीसीई की समझ | 4.8. |
| | पर्याप्त व स्पष्ट है। | 8.1 |
| | कार्यशाला में काम करने की आवश्यकता है। | 8.2 |
| | सीसीई पर प्रक्रियात्मक कार्य (अध्यापक योजना डायरी, रचनात्मक चैकलिस्ट, योगात्मक आकलन) | 4.9. |
| | निर्धारित प्रक्रियाओं के साथ पूर्ण है। | 9.1 |
| | सभी अपूर्ण हैं। | 9.2 |
| | दस्तावेजों पर कोई काम नहीं किया है। | 9.3 |
| | पोर्टफोलियो पर काम (पाठ्यिक योजना के अनुसार सभी विद्यार्थियों के अभ्यास पत्रक में टिप्पणी, तिथि) | 4.10. |
| | पोर्टफोलियो उक्तानुसार पूर्ण है। | 10.1 |
| | अपूर्ण है और बेसलाइन, योगात्मक आकलन के अलावा कोई अभ्यास पत्र नहीं है। | 10.2 |
| | गत अवलोकन में दिये गये सुझावों की पालना का विवरण लिखे। | 4.11 |

सुझाव-

12.1 शिक्षण कार्य एवं योजना से संबंधित :

12.3 विद्यार्थियोंके शैक्षिक स्तरों से संबंधित :